

**31.03.2017 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का**

**बासेल III पिलर 3 प्रकटीकरण**

**तालिका डीएफ - 1:  
प्रयोज्यता का कार्य-विस्तार**

बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर संरचनागत ढाँचा प्रयोज्य है: यूको बैंक

**(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:**

निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	क्या निकाय समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र में शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	क्या निकाय समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल है	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	समेकन की कार्यविधि में अंतर के कारणों का विवेचन करें	यदि समेकन के कार्यक्षेत्रों में से सिर्फ़ एक के तहत समेकन किया गया है तो इसके कारण का विवेचन करें
यूको बैंक						
भारत	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची - लागू नहीं.

ख. लेखांकन एवं नियमनकारी दोनों कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए ग्रहण नहीं किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय की पूँजी लिखत में बैंक के निवेशों का नियमनकारी उपचार	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**(ii) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :**

ग. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/जिस देश में शामिल है (उपर्युक्त (i) क. के अनुसार)	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल तुलन पत्र आरितयाँ (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

घ. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की समग्र राशि, जो समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की जाती, यानी जिसकी कठौती की जाती है:

अनुषंगियों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूँजी की कमी
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ड. बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशियाँ (उदाहरण चातू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं:

बीमा निकायों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी/मत देने की शक्ति के अनुपात में बैंक की धारिता का %	नियमनकारी पूँजी पर प्रमात्रात्मक प्रभाव, जोखिम भार देने की कार्यविधि बनाम पूर्ण कठौती कार्यविधि का उपयोग
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

च. बैंकिंग समूह के दायरे में निधियों या नियमनकारी पूँजी के अंतरण में प्रतिबंध या अवरोध: लागू नहीं

**BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURE AS ON 31.03.2017**

**UCO BANK**

**Table DF - 1:  
Scope of Application**

**Name of the head of the banking group to which the framework applies UCO BANK.**

**(i) Qualitative Disclosures:**

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
UCO Bank	No	NA	No	NA	NA	NA
India						

a. List of group entities considered for consolidation – Not applicable.

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NA	NA	NA	NA	NA	NA

**(ii) Quantitative Disclosures:**

**c. List of group entities considered for consolidation**

Name of the entity /country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NA	NA	NA	NA

**d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:**

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NA	NA	NA	NA	NA

**e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:**

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NA	NA	NA	NA	NA

**f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: Not applicable**

**तालिका डी एफ - 2**  
**पूंजी पर्याप्तता**

<b>गुणात्मक प्रकटीकरण</b>	
(क) विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थन करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूंजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा भी की जाती है।	
<b>प्रमाणात्मक प्रकटीकरण</b>	
(ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता:	(करोड़ ₹ में)
मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन पोर्टफोलियो	9423.47
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता:	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	1129.27
ब्याज दर जोखिम	1040.30
विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	2.25
ईक्विटी जोखिम	86.72
(घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता:	
बुनियादी सूचक दृष्टिकोण	1195.18
• मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	
(ङ) सामान्य ईक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी अनुपात :	
सामान्य ईक्विटी टियर 1	7.64%
टियर 1	8.27%
कुल पूँजी अनुपात	10.93%
शीर्षरथ समेकित समूह के लिए	लागू नहीं
महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों हेतु (स्टैंड अलोन या	लागू नहीं
उप-समेकित, जो इस पर निर्भर करेगा कि	
फ्रेमवर्क किस तरह लागू किया गया है।)	

**Table DF - 2**  
**Capital Adequacy**

Qualitative Disclosures		
(a)	Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.	
<b>Quantitative Disclosures</b>		
(b)	Capital requirements for Credit Risk : Portfolio subject to Standardized Approach Securitization Exposures	₹ in crore 9423.47 Nil
(c)	Capital requirements for Market Risk : Standardized Duration Approach Interest Rate Risk Foreign Exchange Risk (including Gold) Equity Risk	1129.27 1040.30 2.25 86.72
(d)	Capital requirements for Operational Risk : Basic Indicator Approach • The Standardised Approach (if applicable)	1195.18
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1and Total Capital ratios: Common Equity Tier I Tier I Total Capital ratios For the top consolidated group For significant bank subsidiaries(stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)	7.64% 8.27% 10.93% Not Applicable Not Applicable

## तालिका डीएफ - 3

### ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

##### **क) पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेतु)**

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक की अनर्जक आस्ति प्रबंध नीति के अनुसार किसी आस्ति को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/अनर्जक आस्ति माना जाता है –

- मीयादी ऋण के मामले में व्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।
- ओपरडाप्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में, नीचे दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है।
- खरीदे गए बिल एवं भुग्नाए गए बिल के मामले में, बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।
- अल्पावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर व्याज दो फसलों के मौसम तक बकाया रहता है।
- दीर्घावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर व्याज एक फसल के मौसम तक बकाया रहता है।

किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब

- बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है, तो खातों को अनियमित माना जाता है।
- बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए व्याज के लिए पूरी नहीं होती है।

##### **ख) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति**

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- ऋण जोखिम अधिग्रहण — कार्यनीति एवं नीतियां
- ऋण अनुमोदन प्रक्रिया
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रिया
- ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया

ऋण जोखिम के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापांक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी तथा नियंत्रण के विश्लेषण हेतु उत्तरदायी है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा लागू कराने और उसके अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है।

ऋण जोखिम मूल्यांकन द्वि-आयामी ऋण रेटिंग प्रणाली के जरिए और एक पुख्ता ढंग से ऋण के निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कृषि एवं एमएसई ऋणों के मामले में यह ऋण रेटिंग प्रणाली ₹25 लाख से अधिक एवं ₹1 करोड़ तक की कुल ऋण सीमाओं वाले ऋण खातों पर लागू की जा रही है। बैंक श्रेणी निर्धारण माइग्रेशन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरों ऐसे सभी ऋण प्रस्ताव ऋण स्कोरिंग मॉडलों के जरिए मूल्यांकन के अधीन लाए जाते हैं जो ऋण रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत न आते हैं।

बैंक, जहाँ कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपादित या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से योग्य खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है।

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

(सभी आंकड़े ₹ करोड़ में)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (सभी राशियां करोड़ में )		संवितरण	
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित
(क)	कुल सकल ऋण एक्सपोजर	131655.01	14581.49
(ख)	ऋणों का भौगोलिक संवितरण		
	देशी	112917.13	9724.49
	विदेशी	18737.89	4857.00

(राशि ₹ करोड़ में)

ग) ऋणों के उद्योगवार संवितरण		एक्सपोजर	
उद्योग का नाम		निधि आधारित	गैर निधि आधारित
क.	खदान और उत्थनन (क.1 + क.2)	983.30	251.21
क.1	कोयला	229.90	209.66
क.2	अन्य	753.40	41.55
ख.	खाद्य प्रसंस्करण (ख.1 से ख5)	3024.20	247.35
ख.1	चीनी	499.89	80.32
ख.2	खाद्य तेल एवं वनस्पति	347.76	142.63
ख.3	चाय	516.29	6.06
ख.4	कॉफी	0.00	0.00
ख.5	अन्य	1660.26	18.34
ग.	मादक पेय (चाय व कॉफी छोड़कर) एवं तंबाकू जिसमें से तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	3.16	17.31
घ.	वस्त्र (क से च तक)	2247.17	76.86
क.	सूती वस्त्र	1349.24	20.24
ख.	जूट	15.08	3.60
ग.	हथकरघा/खादी (गैर प्राथमिक)	0.00	0.00
घ.	सिल्क	0.00	0.00
ड.	ऊनी	0.00	0.00
च.	अन्य	882.85	53.02
घ (अर्थात् कुल वस्त्रोद्योग)	में से कताई मिलों को	0.00	0.00
छ.	चर्म एवं चर्म उत्पाद	63.08	1.53
च.	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	181.49	3.43
छ.	कागज एवं कागज उत्पाद	447.14	15.07
ज.	पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ऊर्जा	3093.13	994.05
झ.	रसायन एवं रसायन उत्पाद (रंग, रंगलेप आदि) (1.1 से 1.4)	1439.04	155.12
झ.1	उर्वरक	276.80	56.39
झ.2	औषध एवं फर्मास्यूटिकल्स	555.58	24.09
झ.3	पेट्रो-केमिकल्स (बुनियादी ढांचागत छोड़कर)	88.51	0.98
झ.4	अन्य	518.15	73.66
अ.	रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	221.66	49.25
ट.	कांच एवं कांच के सामान	130.29	15.24
ठ.	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	820.47	57.34
ड.	धातु एवं धातु उत्पाद (ड. 1 + ड.2)	11533.22	485.32
ड.1	लोहा एवं इस्पात	9717.48	221.41
ड.2	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	1815.74	263.91
ण.	समस्त इंजीनियरिंग (ण.1 + ण.2)	3475.42	532.69
ण.1	इलेक्ट्रॉनिक्स	1055.37	33.36
ण.2	अन्य	2420.05	499.33
त.	मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	779.48	8.98
थ.	रत्न एवं जेवर	6141.20	493.18
द.	विनिर्माण	2036.01	615.44
ध.	आधार संरचना क्षेत्र (क से घ)	18101.05	1593.79
क.	यातायात (क.1 से क.6)	3746.05	326.48
क.1	पथ एवं पुल निर्माण	3101.19	324.07
क.2	बंदरगाह	369.18	2.22
क.3	अंतर्देशीय जलपथ	0.00	0.00
क.4	हवाईअड्डा	0.00	0.00
क.5	रेल पथ, सुरंग, वायडक्ट, पुल	217.72	0.00
क.6	शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी पथ यातायात के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	57.96	0.19

(राशी ₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम	एक्सपोजर	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
ख. ऊर्जा (ख.1 से ख.6)	10884.10	753.67
ख.1 बिजली (उत्पादन)	9513.52	217.62
ख.1.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	0.00	0.00
ख.1.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.2 बिजली (संचारण)	361.65	0.04
ख.2.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	361.65	0.04
ख.2.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.3 बिजली (वितरण)	1008.93	536.01
ख.3.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	1008.93	536.01
ख.3.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.4 तेल पाईपलाइन	0.00	0.00
ख.5 तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा	0.00	0.00
ख.6 गैस पाईपलाइन	0.00	0.00
ग. जल एवं सफाई का प्रबंध (ग.1 से ग.6)	587.32	0.00
ग.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंध	586.45	0.00
ग.2 जल-आपूर्ति पाईपलाइन	0.00	0.00
ग.3 जलशोधन संयंत्र	0.87	0.00
ग.4 अपशिष्ट संग्रहण, शोधन एवं निपटान प्रणाली	0.00	0.00
ग.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध आदि)	0.00	0.00
ग.6 बाढ़ जल निकासी प्रणाली	0.00	0.00
घ. संचार (घ.1 से घ.2)	1539.94	224.49
घ.1 दूरसंचार (नियत नेटवर्क)	27.31	0.00
घ.2 दूरसंचार टॉवर	1512.63	224.49
ङ. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी सुविधाएं (ङ.1 से ङ.9)	1343.64	289.15
ङ.1 शिक्षण संस्थाएं (पूँजी स्टॉक)	134.52	0.90
ङ.2 अस्पताल (पूँजी स्टॉक)	10.16	0.15
ङ.3 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के बाहर स्थित तीन सितारे वाले वर्गीकृत होटल	881.76	176.19
ङ.4 औद्योगिक पार्क, एसइजेड पर्यटन सुविधा एवं कृषि बाजार के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाएं	172.00	71.25
ङ.5 उर्वरक (पूँजी निवेश)	0.00	0.00
ङ.6 बागान एवं कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारणगत बुनियादी सुविधाएं	124.95	40.66
ङ.7 अंतिम बाजार	20.25	0.00
ङ.8 मिट्टी परीक्षण	0.00	0.00
ङ.9 शीत भंडारण की शृंखला	0.00	0.00
न. अन्य उधोग	3740.08	477.47
<b>समस्त उद्योग (क से न तक)</b>	<b>58460.59</b>	<b>6090.63</b>

### घ) परिसंपत्तियों की अवशिष्ट निविदागत परिपक्वता वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	सकल अग्रिम	निवेश	ऋण	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
1 दिन/1 Day	606.92	3537.39	1.08	52.36	802.16	891.49
2 से 7 दिन तक/2-7 days	3388.31	1169.71	518.74	501.88	867.01	423.39
8 से 14 दिन तक/8-14 Days	2632.89	1609.73	15.16	-	365.51	686.18
15 से 30 दिन तक/15-30 Days	7096.09	2099.89	336.78	-	2315.38	1187.06
31 दिन से 2 माह तक/31 days to 2 Month	8799.7	3423.73	486.04	972.75	3538.83	2328.75
2 माह से अधिक परंतु 3 माह तक/ Over 2 Months upto 3 Month	11384.02	3804.31	320.22	843.48	5733.72	3997.4
3 माह से अधिक परंतु 6 माह तक/Over 3 Months upto 6 Month	30359.01	8576.51	551.89	1830.08	7088.73	7308.9
6 माह से अधिक परंतु 1 वर्ष तक/ Over 6 Months upto 1 Year	46258.22	18827.43	2259.46	122.33	3238.08	7550.68
1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष तक/ Over 1 Year years upto 3 Year	33471.79	10804.91	8838.06	1342.11	2024.08	2644.13
3 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष तक/ over 3 Year years upto 5 Year	11406.23	16739.83	6425.51	1049.94	3507.61	2265.45
5 वर्ष से अधिक/ Over 5 year	45881.32	61061.58	55015.21	2820.03	4267.32	7860.03
	<b>201284.51</b>	<b>131655.01</b>	<b>74768.13</b>	<b>9534.96</b>	<b>33748.43</b>	<b>37143.48</b>

- घ) एनपीए की राशि (सकल) : **22540.95** करोड़
  - अवमानक : **5007.76** करोड़
  - सदिग्ध 1 : **4530.11** करोड़
  - सदिग्ध 2 : **9281.28** करोड़
  - सदिग्ध 3 : **2574.17** करोड़
  - हानि : **1147.63** करोड़
- छ) शुद्ध एनपीए : **10703.39** करोड़
- ज) एनपीए अनुपात: -
  - सकल अग्रिम पर सकल एनपीए : **17.12%**
  - शुद्ध अग्रिम पर शुद्ध एनपीए : **8.94%**
- झ) एनपीए की घट-बढ़ (सकल)
  - प्रारंभिक शेष : **20907.73** करोड़
  - वृद्धि : **9909.27** करोड़
  - कमी : **8276.05** करोड़
  - अंत शेष : **22540.95** करोड़
- झ) विशेष एवं सामान्य प्रावधान की घट-बढ़

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रावधानों की घट-बढ़	विशेष प्रावधान #	सामान्य प्रावधान @
प्रारंभिक शेष	8002.07	681.50
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	4414.68	228.02
बढ़े खाते डालना	1936.94	शून्य
अतिरेक प्रावधानों को बढ़े खाते से निकालना	शून्य	66.47
प्रावधानों के बीच अंतरण सहित कोई अन्य समायोजन**	-27.19	-1.71
अंत शेष	10452.62	841.34

#एनपीए प्रावधान प्रदर्शित करता है, @मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रदर्शित करता है

\*\* विनिमय अंतर

ज) बढ़े डाले गए ऐसे खाते एवं वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">बढ़े डाले गए ऐसे खाते जो सीधे आय विवरण बही में शामिल किए गए हैं (बढ़े डाले गए खातों में) वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">— ₹154.11 crore</td></tr> </table>	बढ़े डाले गए ऐसे खाते जो सीधे आय विवरण बही में शामिल किए गए हैं (बढ़े डाले गए खातों में) वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं	— ₹154.11 crore
बढ़े डाले गए ऐसे खाते जो सीधे आय विवरण बही में शामिल किए गए हैं (बढ़े डाले गए खातों में) वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं	— ₹154.11 crore		
ट) अनर्जक निवेशों की राशि	: 309.21 करोड़		
ठ) अनर्जक निवेशों हेतु धारित प्रावधानों की राशि	: 283.87 करोड़		
ঢ) निवेश अवमूल्यन के प्रावधानों की घट-बढ़			
• प्रारंभिक शेष	: 521.85 करोड़		
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	: 293.51 करोड़		
• बढ़े खाते डालना	: शून्य		
• विनिमय अंतराल	: -1.29 करोड़		
• अतिरेक प्रावधानों को वापस खाते में लेना	: 348.93 करोड़		
• अंत शेष	: 465.14 करोड़		

ঢ) উদ্যোগবার এনপীএ এবং প্রাবধান

(₹ করোড় মে)

ক্র. স.	উদ্যোগ কা নাম	এনপীএ	বিশেষ এবং সামান্য প্রাবধান
1	খদান ও উত্থনন	291.69	125.15
2	খাদ্য প্রসংস্করণ	1384.36	1099.59
3	বস্ত্র	1,412.42	782.36
4	চর্ম এবং চর্ম উত্পাদ	11.56	8.6
5	লকড়ি এবং লকড়ি উত্পাদ	59.81	59.81
6	কাগজ এবং কাগজ উত্পাদ	249.31	239.96
7	পেট্রোলিয়ম (গৈর-প্রাথমিক), কোয়লা উত্পাদ (গৈর-খনন) ও আণবিক ইঁধন	461.97	110.81
8	রসায়ন এবং রসায়ন উত্পাদ	211.73	111.4
9	রবড়, প্লাস্টিক এবং উনকে উত্পাদ	13.42	4.51
10	কাংচ এবং কাংচ কে সামান	59.81	59.81
11	সীমেন্ট এবং সীমেন্ট উত্পাদ	1.75	0.63
12	মূল ধাতু এবং ধাতু উত্পাদ	6.437.73	3.374.99
13	সমস্ত ইঞ্জীনিয়ারিং	1864.53	569.7
14	মোটরযান, যান কে কলপুর্জ ও যাতায়াত উপকরণ	663.53	260.34
15	রল এবং আভূষণ	159.98	125.23
16	নির্মাণ	1540.99	650.65

ণ) ভূগোল-বার এনপীএ এবং প্রাবধান

(রাশি ₹ করোড় মে)

বিবরণ	ঘরেলু	বিদেশী	কুল
কুল এনপীএ	21698.81	842.14	22540.95
এনপীএ কে লিএ প্রাবধান	9852.21	600.41	10452.62
মানক অগ্রিমো কে প্রাবধান	804.21	37.13	841.34

**Table DF - 3**  
**Credit Risk: General Disclosures for All Banks**

<b>Qualitative Disclosure</b>															
<b>a) Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose):</b> In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where – <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.</li> <li>ii. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).</li> <li>iii. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,</li> <li>iv. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.</li> <li>v. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.</li> </ul> An account is considered out of order when <ul style="list-style-type: none"> <li>i. The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power; the account is treated as out of order.</li> <li>ii. The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.</li> </ul>															
<b>b) Bank's Credit Risk Management Policy:</b> Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompasses the following: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Credit Risk acquisition – strategies &amp; policies,</li> <li>ii. Credit approval processes.</li> <li>iii. Credit Risk monitoring processes.</li> <li>iv. Credit Risk control processes.</li> </ul> Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk Management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis. Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments. Credit Risk Assessment is done through two dimensional credit rating system and for taking credit decisions in a consistent manner. The credit rating system is being applied to loan accounts with total limits above ₹25 lacs and ₹1 Cr in case of Agriculture and MSE loans. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies. All credit proposals which are not under Credit Rating System are subjected to be evaluated through Credit Scoring models. The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.															
<b>Quantitative disclosures</b> (All figures in ₹ in Crores)															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Quantitative Disclosures</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Fund Based</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Non Fund Based</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">a) Total Gross Credit Exposure</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">131655.01</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">14581.49</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">b) Geographical Distribution of Exposure</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">    Domestic</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">112917.13</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">9724.49</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">    Overseas</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">18737.89</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">4857.00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantitative Disclosures	Fund Based	Non Fund Based	a) Total Gross Credit Exposure	131655.01	14581.49	b) Geographical Distribution of Exposure			Domestic	112917.13	9724.49	Overseas	18737.89	4857.00
Quantitative Disclosures	Fund Based	Non Fund Based													
a) Total Gross Credit Exposure	131655.01	14581.49													
b) Geographical Distribution of Exposure															
Domestic	112917.13	9724.49													
Overseas	18737.89	4857.00													

c) Industry type distribution of Exposures			(Amount in ₹ Cr)
Industry Name	Exposure		
	Funded	Non-Funded	
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	983.30	251.21	
A.1 Coal	229.90	209.66	
A.2 Others	753.40	41.55	
B. Food Processing (B.1 to B.5)	3024.20	247.35	
B.1 Sugar	499.89	80.32	
B.2 Edible Oils and Vanaspati	347.76	142.63	
B.3 Tea	516.29	6.06	
B.4 Coffee	0.00	0.00	
B.5 Others	1660.26	18.34	
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco of which Tobacco and tobacco products	3.16	17.31	
D. Textiles (a to f)	2247.17	76.86	
a. Cotton	1349.24	20.24	
b. Jute	15.08	3.60	
c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	0.00	0.00	
d. Silk	0.00	0.00	
e. Woolen	0.00	0.00	
f. Others	882.85	53.02	
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0.00	0.00	
E. Leather and Leather products	63.08	1.53	
F. Wood and Wood Products	181.49	3.43	
G. Paper and Paper Products	447.14	15.07	
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	3093.13	994.05	
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	1439.04	155.12	
I.1 Fertilizers	276.80	56.39	
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	555.58	24.09	
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	88.51	0.98	
I.4 Others	518.15	73.66	
J. Rubber, Plastic and their Products	221.66	49.25	
K. Glass & Glassware	130.29	15.24	
L. Cement and Cement Products	820.47	57.34	
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	11533.22	485.32	
M.1 Iron and Steel	9717.48	221.41	
M.2 Other Metal and Metal Products	1815.74	263.91	
N. All Engineering (N.1 + N.2)	3475.42	532.69	
N.1 Electronics	1055.37	33.36	
N.2 Others	2420.05	499.33	
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	779.48	8.98	
P. Gems and Jewellery	6141.20	493.18	
Q. Construction	2036.01	615.44	
S. Infrastructure (a to d)	18101.05	1593.79	
a. Transport (a.1 to a.6)	3746.05	326.48	
a.1 Roads and Bridges	3101.19	324.07	
a.2 Ports	369.18	2.22	
a.3 Inland Waterways	0.00	0.00	
a.4 Airport	0.00	0.00	
a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	217.72	0.00	
a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)	57.96	0.19	

(Amount in ₹ Cr)

Industry Name	Exposure	
	Funded	Non-Funded
b. Energy (b.1 to b.6)	10884.10	753.67
b.1 Electricity (Generation)	9513.52	217.62
b.1.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	0.00	0.00
b.1.3 Private Sector	0.00	0.00
b.2 Electricity (Transmission)	361.65	0.04
b.2.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	361.65	0.04
b.2.3 Private Sector	0.00	0.00
b.3 Electricity (Distribution)	1008.93	536.01
b.3.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	1008.93	536.01
b.3.3 Private Sector	0.00	0.00
b.4 Oil pipelines	0.00	0.00
b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	0.00	0.00
b.6 Gas pipelines	0.00	0.00
c. Water and Sanitation (c.1 to c.6)	587.32	0.00
c.1 Solid Waste Management	586.45	0.00
c.2 Water supply pipelines	0.00	0.00
c.3 Water treatment plants	0.87	0.00
c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	0.00	0.00
c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	0.00	0.00
c.6 Storm Water Drainage System	0.00	0.00
d. Communication (d.1 to d.2)	1539.94	224.49
d.1 Telecommunication (Fixed network)	27.31	0.00
d.2 Telecommunication towers	1512.63	224.49
e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	1343.64	289.15
e.1 Education Institutions (capital stock)	134.52	0.90
e.2 Hospitals (capital stock)	10.16	0.15
e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	881.76	176.19
e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	172.00	71.25
e.5 Fertilizer (Capital investment)	0.00	0.00
e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	124.95	40.66
e.7 Terminal markets	20.25	0.00
e.8 Soil-testing laboratories	0.00	0.00
e.9 Cold Chain	0.00	0.00
T. Other Industries	3740.08	477.47
<b>All Industries (A to T)</b>	<b>58460.59</b>	<b>6090.63</b>

d) Residual contractual maturity breakdown of assets (₹ in Cr)						
Particulars	Deposits	Advance	Investment	Borrowing	Foreign Currency - Asset	Foreign Currency - Liability
1 Day	606.92	3537.39	1.08	52.36	802.16	891.49
2-7 days	3388.31	1169.71	518.74	501.88	867.01	423.39
8-14 Days	2632.89	1609.73	15.16	-	365.51	686.18
15-30 Days	7096.09	2099.89	336.78	-	2315.38	1187.06
31 days to 2 Month	8799.7	3423.73	486.04	972.75	3538.83	2328.75
Over 2 Months upto 3 Month	11384.02	3804.31	320.22	843.48	5733.72	3997.4
Over 3 Months upto 6 Month	30359.01	8576.51	551.89	1830.08	7088.73	7308.9
Over 6 Months upto 1 Year	46258.22	18827.43	2259.46	122.33	3238.08	7550.68
Over 1 Year years upto 3 Year	33471.79	10804.91	8838.06	1342.11	2024.08	2644.13
Over 3 Year years upto 5 Year	11406.23	16739.83	6425.51	1049.94	3507.61	2265.45
Over 5 year	45881.32	61061.58	55015.21	2820.03	4267.32	7860.03
	<b>201284.51</b>	<b>131655.01</b>	<b>74768.13</b>	<b>9534.96</b>	<b>33748.43</b>	<b>37143.48</b>
e) Amount of NPAs (Gross) :			22540.95 Cr			
• Substandard			: 5007.76 Cr			
• Doubtful 1			: 4530.11 Cr			
• Doubtful 2			: 9281.28 Cr			
• Doubtful 3			: 2574.17 Cr			
• Loss			: 1147.63 Cr			
f) Net NPAs			: 10703.39 Cr			
g) NPA Ratios :						
• Gross NPAs to gross advances			: 17.12%			
• Net NPAs to net advances			: 8.94 %			
h) Movement of NPAs (Gross)						
• Opening balance			: 20907.73 Cr			
• Additions			: 9909.27 Cr			
• Reductions			: 8276.05 Cr			
• Closing balance			: 22540.95 Cr			
i) Movement of Specific & General Provision						(Amount in ₹ in Crore)
Movement of provisions			Specific Provisions#		General Provisions@	
Opening balance			8002.07		681.50	
Provisions made during the period			4414.68		228.02	
Write-off			1936.94		NIL	
Write-back of excess provisions			NIL		66.47	
Any other adjustments, including transfers between provisions**			-27.19		-1.71	
Closing balance			10452.62		841.34	

#Represents provisions for NPA, @Represents provisions for Standard Advances

\*\* Exchange difference

j. Details of write offs and recoveries that have been booked directly to the income statement

Write offs that have been booked directly to the income statement Recoveries (in written-off) that have been booked directly to the income statement	— ₹154.11 crore
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

k) Amount of Non-Performing Investments: 309.21 Cr

l) Amount of provisions held for non-performing investments: - 283.87 Cr

m) Movement of provisions for depreciation on investments

• Opening balance	: 521.85 Cr
• Provisions made during the period	: 293.51 Cr
• Write-off	: NIL
• Exchange Difference	: -1.29 Cr
• Write-back of excess provisions	: 348.93 Cr
• Closing balance	: 465.14 Cr

## n) Industry wise NPA and provisions

(₹ in Cr.)

Sl. No.	Industry Name	NPA	Specific and General Provisions
1	Mining and Quarrying	291.69	125.15
2	Food Processing	1384.36	1099.59
3	Textiles	1412.42	782.36
4	Leather and Leather products	11.56	8.6
5	Wood and Wood Products	59.81	59.81
6	Paper and Paper Products	249.31	239.96
7	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	461.97	110.81
8	Chemicals and Chemical Products	211.73	111.4
9	Rubber, Plastic and their Products	13.42	4.51
10	Glass & Glassware	59.81	59.81
11	Cement and Cement Products	1.75	0.63
12	Basic Metal and Metal Products	6437.73	3374.99
13	All Engineering	1864.53	569.7
14	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	663.53	260.34
15	Gems and Jewellery	159.98	125.23
16	Construction	1540.98	650.65

## o) Geography Wise NPA &amp; Provisions

(₹ in Crore)

Particulars	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	21698.81	842.14	22540.95
Provisions for NPA	9852.21	600.41	10452.62
Provisions for Standard Advances	804.21	37.13	841.34

## तालिका डीएफ - 4

### ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

#### गुणात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग, मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भार-निर्धारण हेतु किया जाता है :

- 1) सीएआरई
  - 2) सीआरआईएसआईएल
  - 3) एफआईटीसीएच
  - 4) आईसीआरए
  - 5) बिक्रवर्क
  - 6) एसएमईआरए  
(अकारादि क्रम से सूचविष्ट)
- श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कार्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है।
  - ऊपर उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया है।

#### प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर

1) 100% कम का जोखिम भार	- ₹137347.11 करोड़
2) 100% जोखिम भार	- ₹31719.34 करोड़
3) 100% से अधिक का जोखिम भार	- ₹17190.69 करोड़
4) कटौती	- ₹0.00 करोड़
योग	- ₹186257.14 करोड़

**Table DF - 4**

**Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach**

**Qualitative disclosure:**

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

- 1) CARE
- 2) CRISIL
- 3) INDIA RATINGS
- 4) ICRA
- 5) Brickwork
- 6) SMERA

(Listed in alphabetical order)

- Rating agencies have rated corporate exposures.
- In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, bank has followed the guidelines of Reserve Bank of India.

**Quantitative disclosure:**

**Exposure after risk mitigation in standardized approach:**

1) Below 100% risk weight	-	₹ 137347.11 Cr.
2) 100% risk weight	-	₹31719.34 Cr.
3) More than 100% risk weight	-	₹17190.69 Cr.
4) Deduction	-	₹0.00 Cr
Total	-	<b>₹186257.14 Cr.</b>

## तालिका डीएफ - 5

### ऋण जोखिम प्रशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

#### गुणात्मक प्रकटीकरण :

(अ) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया

#### ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

बैंक इस शर्त के अध्यधीन निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूँजी आवश्यकता की गणना करता है कि -

- बैंक के पास यह निष्कर्ष निकालने का एक सुनिश्चित विधिक आधार है कि चाहे काउंटर पार्टी दिवालिया अथवा शोधन अक्षम है अथवा नहीं, प्रत्येक संगत क्षेत्राधिकार में नेटिंग या ऑफसेटिंग करार प्रवर्तनीय है।
- बैंक किसी भी समय उसी काउंटरपार्टी के ऋण/अग्रिम एवं जमाराशियों को निर्धारित कर सकता है जो नेटिंग व्यवस्था के अध्यधीन है।
- बैंक निवल आधार पर संगत एक्सपोजर पर निगरानी रखता है और उनपर नियंत्रण करता है, ऋणों और अग्रिमों को एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जमाराशि को संपार्शिक प्रतिभूत के रूप में माना जाता है।

#### ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक- गारंटी

- गारंटी को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय एवं शर्तरहित होना चाहिए।
- प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूँजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबकि असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है।
- गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए।
- योग्य गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी

निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगी:

- सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, एससीजीसी और सीजीटीएसएमई) बैंक एवं काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाले प्राथमिक व्यापारी;
- 'एए' या उससे बेहतर रेटिंग वाली अच्युक्ति की अपेक्षा : इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा, जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो।

- संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है।

#### (आ) संपार्शिक मूल्यांकन एवं प्रबंध के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया

यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के रूप में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उमीद क्रेता से की जाती है। मूल्यांकन आस्ति मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है, जो प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली मूर्त आस्तियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

#### विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति

##### (i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिका निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकन से उसकी तुलना की जाएगी। उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा करने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी।

निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाएगा :

- निर्माण की प्रकृति
- भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती
- किराया से होने वाली आय
- निर्धारित /प्रदत्त कर की राशि
- भूमि एवं भवन का क्षेत्र
- निर्माण की लागत
- जगह का मूल्य

##### (ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन

दृष्टिकोणित /गिरवी रखी गई आस्तियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

##### (iii) शेयरों का मूल्यांकन :

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है :

- शेयर का मौजूदा बाजार मूल्य
- पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों में से जो भी कम हो उसका औसत। स्पूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आस्ति मूल्य (एनएवी)/पुनर्क्रय कीमत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, को लिया जाए।

(iv) एल आई सी पॉलिसी का मूल्यांकन

पॉलिसी का वर्तमान समर्पण मूल्य

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कठिनाई के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरुरी है।

(ग) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपार्शिक निम्नलिखित हैं :

- (i) भूमि एवं भवन जैसी रथावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक
- (ii) संयत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन
- (iii) शेयरों/डिबेंचरों/ईकिवटियों/म्युचुअल फंड यूनिटों को गिरवी रखना
- (iv) एलआईसी पॉलिसी का समनुदेशन
- (v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार
- (vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना

(घ) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी लेने हेतु अनुरोध करता है :

- i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी
- ii) कार्पोरेट गारंटी
- iii) राज्य सरकार की गारंटी

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋण सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनिटों को प्रदान की जाती है।

जब वैयक्तिक गारंटी मांगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

(ङ) प्रशमन के भीतर ऋण जोखिम संकेद्रण के बारे में सूचना :

ऋण जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमाराशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा केन्द्रीकृत किया जाता है।

बाजार मूल्य में उत्तार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से कम किया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:

मानक दृष्टिकोण के अधीन मार्जिन को लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्शिक द्वारा कुल ₹21200 करोड़ के एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया।

तालिका डीएफ - 6

प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

लागू नहीं क्योंकि यूको बैंक के पास कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

**Table DF - 5**

**Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches**

**Qualitative disclosure:**

**(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting Credit risk mitigation techniques- On Balance Sheet netting**

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank

- i) has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;
- ii) is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;
- iii) monitors and controls the relevant exposures on a net basis;

Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals.

**Credit risk mitigation techniques- Guarantees**

- i) Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.
- ii) Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncover portion retain the risk weight of the underlying counterparty.
- iii) Operational requirement for guarantees must be met.
- iv) Range of eligible guarantors (counter guarantors)

Credit protection given by the following entities will be recognized:

- a) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, SCGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;
- b) Other entities rated AA- better. This would include guarantee covered provided by parent, subsidiary and affiliated companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- v) Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

**(b) Policies and processes for collateral valuation and Management**

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

**Method of valuation of various types of securities:**

**(i) Valuation of land and building**

All landed properties must be valued by Registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

The following points are taken into consideration:

- i) Nature of construction
- ii) Age of the building and its present strength
- iii) Rental yield
- iv) Tax amount assessed/paid
- v) Area of land and building
- vi) Cost of construction
- vii) Value of site

**(ii) Valuation of Movable properties:**

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

**(iii) Valuation of shares:**

Market value is calculated as below:

- a) Current market price of the share
- b) Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

**(iv) Valuation of LIC Policy:**

**Present surrender value of the policy.**

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.

**(c) Main types of collateral taken by Bank are –**

- i) Equitable Mortgage/ Registered Mortgage of immovable properties like land and building.
- ii) Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.
- iii) Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds
- iv) Assignment of LIC Policies
- v) Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts
- vi) Pledge of NSCs/KVPs

**(d) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness**

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty-

- i) Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,
- ii) Corporate Guarantee
- iii) Guarantees of State Government

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding Company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

**(e) Information about credit risk concentrations within the mitigation taken –**

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contacts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

**Quantitative disclosure:**

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach- ₹ 21200 Cr.

**Table DF - 6**

**Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach**

Not Applicable as UCO Bank is not having any securitization exposure.

## तालिका डीएफ - 7

### क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम

#### गुणात्मक प्रकटीकरण :

##### 1. उद्देश्य एवं नीतियाँ:

निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु। इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ अपनाई हैं।

##### 2. कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

यह नीति एकसपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है। विदेश स्थित केन्द्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित केन्द्रों की स्थानीय एलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।

##### 3. संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन:

निवेश से संबंधित निर्णय कार्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक व फ्लैगशिप कार्पोरेट ऋण, मिड कार्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं। विदेश स्थित केंद्रों पर केंद्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रेट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैंक ऑफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड ऑफिस के रूप में कार्य करता है।

##### 4. जोखिम की रिपोर्टिंग और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है।

##### 5. जोखिमों से बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियाँ एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ :

बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाए रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिनरात, रातभर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रूपयों से बैंक के भारतीय रूपयों में रातभर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

#### प्रपात्रात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित के लिए पूँजी की आवश्यकता	(करोड़ ₹ में)
ब्याज दर जोखिम	1040.30
ईमियटी स्थिति जोखिम	86.72
विदेशी मुद्रा जोखिम	2.25

**TABLE DF - 7**  
**Market Risk in Trading Book**

**Qualitative Disclosure:**

**1. Objective & Policies:**

To limit the market risk in Investment and Forex instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

**2. Strategies and Processes:**

Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

**3. Structure and organization of the relevant risk management function:**

Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Flagship Corporate Credit, Mid Corporate, Finance and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The Bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

**4. The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:**

Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

**5. Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s militants:**

The Bank's policy is to maintain near square position in Forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the Bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

**Quantitative Disclosures:**

(₹ in crore)

Capital requirements for :	
Interest Rate Risk	1040.30
Equity Position Risk	86.72
Foreign Exchange Risk	2.25

## तालिका डीएफ - 8

### परिचालनगत जोखिम

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है —

- सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
- परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना
- महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है —

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति(सीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष (ओआरएमसी)
- कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (बीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ(ओआरएमएस)
- जोखिम प्रबंधन विभाग

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है।

#### जोखिम की सूचना और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है।

सभी वित्तीय विभागों/कारोबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएं ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके।

बैंक और अधिक विकसित मापन दृष्टिकोणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हानि की घटना के प्रकार-वार और कारोबार प्रवृत्ति-वार परिचालन जोखिम हानि के प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित करता रहा है। बाहरी हानि के आंकड़े प्राप्त करने के लिए बैंक ने कॉर्डक्स की सदस्यता हासिल कर ली है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार बैंक मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम के अनुरूप पूँजी रख रहा है। 31.03.2017 की स्थिति को बीईए के अनुसार पूँजी आवश्यकता ₹1195.18 करोड़ की है।

**Table DF – 8**  
**Operational Risk**

**Qualitative disclosure:**

The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- Identification and assessment of operational Risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- The Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Committee for Operational Risk Management (CORM)
- Operational Risk Management Cell (ORMC)
- Business Operational Risk Managers (BORM)
- Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- Risk Management Department

Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.

Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system:

In order to provide independent assessment of adequacy of and compliance with, bank's established policies and procedures adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

The Bank has been collecting the relevant operational risk loss data loss event types and business lines wise to meet the requirement of Advanced Measurement Approaches. Bank has obtained membership of CORDEX for accessing the external loss data.

As per RBI directives, the bank has been maintaining capital for operational risk under Basic Indicator approach (BIA). The capital requirement as per BIA is ₹1195.18 crores as on 31.03.2017.

## तालिका डीएफ - 9

### बैंकिंग बहियों में व्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने अपनी आस्ति देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में व्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और साथ ही एक वर्ष की अवधि के लिए जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार व्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित अवधि का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और ईकिवटी में परिवर्तन का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है।

#### प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

1) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए अर्जत में अनुमानित वृद्धि (कमी)	+/- 162 करोड़
2) आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (हास)	+/- 2.12 % जोखिम पूंजी

**Table DF-9**  
**Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)**

**Qualitative disclosure:**

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest rate risk in Banking Books. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of modified duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve bank of India and estimates Equity Var. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee/ Risk management Committee of the Board.

**Quantitative disclosure :**

1)	Estimated increase (decline) in earnings for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- ₹ 162 Cr.
2)	Estimated increase (decline) in economic value for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- 2.12 % Risk Capital

## तालिका डीएफ-10

### काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्स्पोजर का सामान्य प्रकटीकरण

#### **गुणात्मक प्रकटीकरण**

##### i) डेरिवेटिव कारोबार में जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन:

संरचनागत ढांचे में कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध निहित है जो कार्यपालक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंतर्नियंत्रित निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग को, जब भी इस प्रकार के लेन-देन किए जाते हैं, उनके बारे में सूचित किया जाता है।

##### ii) जोखिम प्रबंधन, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:

क) बैंक द्वारा संपन्न किए जाने वाले व्याज दर स्वाप (आईआरएस), बचाव एवं कारोबार के प्रयोजन से हैं। उत्पाद के रूप में डेरिवेटिव की पेशकश आरबीआई मानदंडों के अनुसार ग्राहक को भी की जाती है। ऐसे लेन-देन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक नीतियों के अनुरूप संपन्न किए जाते हैं।

ख) व्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि की बैंचमार्क व्याज दरों के उत्तार-चढ़ाव के अनुसार व्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन में जोखिम की माप की जाती है। जोखिम को मापने के प्रयोजन से सभी व्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन को शामिल किया जाता है। जोखिम आकलन करके प्राप्त रिपोर्टों को प्रतिदिन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशकों तथा नियत अवधि में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। व्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति पर जोखिम की निगरानी आधारित की जाती है।

##### iii) जोखिम से बचाव और/या प्रशमन की नीतियां तथा बचावों/प्रशामकों की निरंतर सक्रिय प्रभावशीलता की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं :

आईआरएस को वास्तविक व्याज पर, जिसमें अस्तियां या देयताएं अंतर्निहित होती हैं, आकलित किया जाता है। नोशनल मूल राशि एवं बचाव की परिपक्वता राशि, सन्निहित आस्ति/देयता के मूल्य एवं परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। जोखिम की निगरानी बकाया व्याज दर स्वाप संविदाओं के मार्क टू मार्केट आधार पर की जाती है तथा तदनुसार ही बचाव की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है। आईआरएस में प्रवेश के लिए संपार्शिर्वक की जरूरत नहीं है। पूँजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु आईआरएस की नोशनल मूल राशि का गुण प्रासंगिक परिवर्तन घटक एवं काउंटरपार्टी के संबंधित जोखिम भार से करके हिसाब में लिया जाता है।

#### **प्रमाणात्मक प्रकटीकरण:**

##### **काउंटरपार्टी ऋण जोखिम का एक्स्पोजर:**

₹ करोड़ में

विवरण	राशि
संविदाओं का कुल सकारात्मक मूल्य	0.00
नेटिंग लाभ	0.00
नेटेड चालू ऋण एक्स्पोजर	0.00
धारित संपार्शिर्वक	0.00
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्स्पोजर	0.00

₹ करोड़ में

मद	नोशनल राशि	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण एक्स्पोजर
ब्रॉड सीसीवाई व्याज दर स्वाप	0.00	0.00
अग्रगामी दर करार	36200.84	606.23
एकल सीसीवाई व्याज दर स्वाप	100.00	0.89
भविष्य व्याज दर	0.00	0.00
ऋण डिफाल्ट स्वाप	0.00	0.00
कुल	36300.84	607.12

**Table DF-10****General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk****Qualitative Disclosures**

- i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:  
The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.
- ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:
- The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.
  - The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the MD / ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.
- (iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:  
IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined. Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

**Quantitative Disclosure:****Exposure of Counterparty Credit Risk:**

Particulars	₹ in Cr	Amount
Gross positive value of contracts		0.00
Netting Benefits		0.00
Netted current credit exposure		0.00
Collateral held		0.00
Net derivative credit exposure		0.00

  

Item	Notional Amount	₹ in Cr Current Credit Exposure As on 31.03.2017
Cross CCY Interest Rate Swaps	0.00	0.00
Forward Exchange Contracts	36200.84	606.23
Single CCY Interest Rate Swaps	100.00	0.89
Interest Rate Futures	0.00	0.00
Credit Default Swaps	0.00	0.00
Total	36300.84	607.12

## तालिका डीएफ - 11

### पूँजी की संरचना

(₹ मिलियन में)

नियमनकारी समायोजनों के संक्रमण के दौरान उपयोग की जानेवाली बासेल     सामान्य प्रकटीकरण तालिका (यनी 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक)		पूर्व-बासेल     उपचार के अधीन राशियां	संदर्भ
<b>सामान्य ईकिवटी टियर 1 पूँजी : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ</b>			
1	सीधे जारी विशेषक साधारण शेयर पूँजी और संबंधित स्टॉक आधिकरण (शेयर प्रीमियम)	80982.3	
2	प्रतिधारित उपार्जन		
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियाँ)	32494.8	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी की गई पूँजी (केवल संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)		
5	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी 1 में अनुमत राशि)		
6	<b>सामान्य ईकिवटी टियर 1 पूँजी : नियमनकारी समायोजनों से पूर्व सामान्य ईकिवटी टियर 1 पूँजी : नियमनकारी समायोजन</b>	<b>113477.1</b>	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सुनाम (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
9	अमूर्त वस्तुएँ (संबंधित कर देयता का निवल)		
10	आरथगित कर आस्तियाँ	22289.7	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्यांकित देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ एवं हानियाँ		
15	निर्धारित-लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर पहले ही प्रदत्त पूँजी से अलग न किया गया हो)		
17	सामान्य ईकिवटी में पारस्परिक प्रतिधारिता		
18	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
19	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
20	बंधक चुकौती अधिकार (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
21	अरथाती अंतरों से उत्पन्न आरथगित कर आस्तियाँ (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा, संबंधित कर देयता को छोड़कर)		

22	15% प्रारंभिक से अधिक राशि		
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
24	जिसमें से: बंधक चुकौती अधिकार		
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)		
26क	जिसमें से: असमेकित बीमा सहायकों की ईकिवटी पूँजी में निवेश		
26ख	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायकों की ईकिवटी पूँजी में निवेश		
26ग	जिसमें से: प्रधान रूप से स्वाधिकृत वित्तीय निकायों की ईकिवटी पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
26घ	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय		
27	कठौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य ईकिवटी टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
28	सामान्य ईकिवटी टियर 1को कुल नियमनकारी समायोजन		
29	सामान्य ईकिवटी टियर 1 पूँजी (सीईटीआई) अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: लिखत	91187.4	
30	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 1 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिकाय (31+32)	7500.0	
31	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईकिवटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर)	-	
32	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)		
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत		
34	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीआईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं है) समूह एटी1 में अनुमत राशि		
35	जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत		
36	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: नियमनकारी समायोजन	7500.0	
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
39	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
40	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (41क + 41ख)		
	41क जिसमें से असमेकित बीमा सहायकों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश		
	41ख जिसमें से प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
42	कठौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन	-	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (एटी1)	7500.0	
45	टियर 1 पूँजी (टी1 सीईटी 1 अ एटी1) (29 अ 44)	98687.4	
	टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान		
46	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 2 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिकाय		
47	टियर 2 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत	12720.0	
48	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित टियर 2 लिखत(एवं सीईटीआई एवं एटी1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) समूह टियर 2 में अनुमत राशि		
49	जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत		
50	प्रावधान	9181.4	
51	टियर 2 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व टियर 2 पूँजी: नियमनकारी समायोजन	31901.4	

52	स्वयं के टियर 2 लिखत में निवेश	137.8	
53	टियर 2 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
55	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं (पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (56क +56ख) 56क जिसमें से कमी जिसे बैंक के साथ समैक्ति नहीं किया गया है। 56ख जिसमें से: प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की टियर 2		
57	टियर 2 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन		
58	टियर 2 पूँजी (टी2)	31763.6	
59	कुल पूँजी (टीसी टी1 + टी2) (45 + 58)	130451.0	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (60क + 60ख + 60ग)	1193320.0	
60क	जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ	919363.2	
60ख	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियाँ	141159.3	
60ग	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ	132797.5	
	पूँजी अनुपात		
61	सामान्य ईकिवटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.64%	
62	टियर1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.27%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.93%	
64	संख्या विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूँजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)		
65	जिसमें से: पूँजी संरक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता		
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता		
67	जिसमें से: जी-एसआईबी अतिरिक्त आवश्यकता		
68	बफर को पुरक करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईकिवटी टियर-1 पूँजी की उपलब्धता (जोखिम भार आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईकिवटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो) कटौती के लिए प्रारंभिक से कम राशि (जोखिम भार-निर्धारण से पूर्व)		
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूँजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बंधक चुकौती अधिकार (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
75	अस्थायी अंतरां से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
	टियर 2 के प्रावधानों के शामिल होने पर प्रयोग्य अधिकतम सीमाएँ		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		
80	क्रमिक विलोपन व्यवस्था के अधीनसी ई टी 1 लिखत पर मौजूदा अधिकतम सीमा		
81	अधिकतम सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई राशि (प्रतिदेयता एवं परिपक्वताओं के बाद अधिकतम सीमा पर अतिरेक)		
82	क्रमिक विलोपन व्यवस्था के अधीनए टी 1 लिखत पर मौजूदा अधिकतम सीमा		
83	अधिकतम सीमा के कारण एटी 1 से निकाली गई राशि (प्रतिदेयता एवं परिपक्वताओं के बाद अधिकतम सीमा पर अतिरेक)		
84	क्रमिक विलोपन व्यवस्था के अधीनटी 2 लिखत पर मौजूदा अधिकतम सीमा		
85	अधिकतम सीमा के कारण टी 1 से निकाली गई राशि (प्रतिदेयता एवं परिपक्वताओं के बाद अधिकतम सीमा पर अतिरेक)		

**Table DF - 11**  
**Composition of Capital**

₹ in million)		
	Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		
<b>Common Equity Tier 1 capital: Instruments and reserves</b>		
1 Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	80982.3	
2 Retained earnings		
3 Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	32494.8	
4 <i>Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies<sup>1</sup>)</i>		
5 Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6 <b>Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	<b>113477.1</b>	
<b>Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>		
7 Prudential valuation adjustments		
8 Goodwill (net of related tax liability)		
9 Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)		
10 Deferred tax assets	22289.7	
11 Cash-flow hedge reserve		
12 Shortfall of provisions to expected losses		
13 Securitisation gain on sale		
14 Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15 Defined-benefit pension fund net assets		
16 Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17 Reciprocal cross-holdings in common equity		
18 Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19 Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20 Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21 Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22 Amount exceeding the 15% threshold		
23 of which: significant investments in the common stock of financial entities		

24	of which: mortgage servicing rights		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
	26a <i>of which:</i> Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		
	26b <i>of which:</i> Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
	26c <i>of which:</i> Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
	26d <i>of which:</i> Unamortised pension funds expenditures		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	Total regulatory adjustments <b>to Common equity Tier 1</b>		
<b>29</b>	<b>Common Equity Tier 1 capital (CET1)</b>	<b>91187.4</b>	
	<b>Additional Tier 1 capital: instruments</b>		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	7500.0	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1</i>		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties amount allowed in group AT1		
35	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>		
<b>36</b>	<b>Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	<b>7500.0</b>	
	<b>Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b) 41a Of which : Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	41b Of which : Shortfall in the additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
<b>43</b>	<b>Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital</b>	<b>-</b>	
<b>44</b>	<b>Additional Tier 1 capital (AT1)</b>	<b>7500.0</b>	
<b>45</b>	<b>Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)</b>	<b>98687.4</b>	
	<b>Tier 2 capital: instruments and provisions</b>		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	12720.0	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
<b>49</b>	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>		
50	Provisions	9181.4	
<b>51</b>	<b>Tier 2 capital before regulatory adjustments</b>	<b>31901.4</b>	

	<b>Tier 2 capital: regulatory adjustments</b>	
52	Investments in own Tier 2 instruments	137.8
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	
	56a <i>of which:</i> Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	
	56b <i>of which:</i> Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
57	<b>Total regulatory adjustments to Tier 2 capital</b>	
58	<b>Tier 2 capital (T2)</b>	31763.6
59	<b>Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)</b>	<b>130451.0</b>
60	<b>Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)</b>	<b>1193320.0</b>
	60a <i>of which: total credit risk weighted assets</i>	919363.2
	60b <i>of which: total market risk weighted assets</i>	141159.3
	60c <i>of which: total operational risk weighted assets</i>	132797.5
	<b>Capital Ratios &amp; Buffers</b>	
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.64%
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.27%
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.93%
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus G-SIB buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	
65	<i>of which: capital conservation buffer requirement</i>	
66	<i>of which: bank specific countercyclical buffer requirement</i>	
67	<i>of which: G-SIB buffer requirement</i>	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	
	<b>National minima (if different from Basel III)</b>	
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	
	<b>Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)</b>	
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	
	<b>Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2</b>	
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	
	<b>Capital instruments subject to Phase-out arrangements (only applicable between -March 31, 2017 and March 31, 2022)</b>	
80	Current cap on CET 1 instruments subject to phase-out arrangements	
81	Amount excluded from CET 1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	
82	Current cap on AT 1 instruments subject to phase out arrangements	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	

**तालिका डीएफ – 12**  
**पूँजी की संरचना – समाधान की अपेक्षाएं**

चरण - 1

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
<b>क</b>	<b>पूँजी एवं देयताएं</b>		
i	प्रदत्त पूँजी आरक्षित एवं अधिक निधि अल्प संख्य ब्याज शेयर एप्लीकेशन राशी कुल पूँजी	15597.28 100437.42  11500.00 127534.70	
ii	जमाराशि जिसमें से : बैंक जमाराशि जिसमें से : ग्राहक जमाराशि जिसमें से : अन्य जमाराशि (कृपया उल्लेख करें)	212647.86 1800197.25	
iii	उधार जिसमें से : भा.रि. बैंक से जिसमें से : बैंकों से जिसमें से : अन्य एजेंसियों एवं संस्थाओं से जिसमें से : अन्य (भारत से बाहर) जिसमें से : पूँजीगत लिखत अन्य देयताएं एवं प्रावधान	4500.00 31130.15 11229.53 1039.94 47450.00 77667.63	
	<b>कुल</b>	<b>2313397.06</b>	
<b>च</b>	<b>आरित्यां</b>		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष निवेश :	87902.50 93096.33	
ii	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूति जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूति जिसमें से : शेयर जिसमें से : ऋणपत्र एवं बांड जिसमें से : सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / सहायक जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युल फंड आदि)	617311.12 564.29 5287.22 95523.83 1845.09 19659.69	
iii	ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1197244.53	
iv	अचल आरित	28494.77	
v	अन्य आरित्यां जिसमें से : साख एवं अमूर्त आरित्यां जिसमें से : आस्थगित कर आरित्यां जिसमें से : अन्य	28636.10 137831.59	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय एवं व्यय खाते में नामे शेष		
	<b>कुल आरित्यां</b>	<b>2313397.06</b>	

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
<b>क</b>	<b>पूँजी एवं देयताएं</b>		
i	प्रदत्त पूँजी जिसमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि जिसमें से : एटी 1 के लिए पात्र राशि आरक्षित एवं अधिक निधि शेयर एप्लीकेशन राशी अल्पसंख्य ब्याज कुल पूँजी	15597.28 15597.28 0.00 100437.42 11500.00  127534.70	
ii	जमाराशि जिसमें से : बैंकों से जमाराशि जिसमें से : ग्राहक जमाराशि जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	212647.86 1800197.25	
iii	उधार जिसमें से : भा.रि. बैंक से जिसमें से : बैंकों से जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें) जिसमें से : पूँजीगत लिखत	4500.00 31130.15 11229.53  1039.94 47450.00	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान जिसमें से : साख से संबद्ध डीएलटी जिसमें से : अमूर्त आरितियों से संबद्ध डीएलटी <b>कुल</b>	77667.63  <b>2313397.06</b>	
<b>ख</b>	<b>आस्तियां</b>		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष और बैंक के पास शेष	87902.50  93096.33	
ii	निवेश जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां जिसमें से : शेयर जिसमें से : ऋण-पत्र एवं बांड जिसमें से : सहायक कंपनियां/ संयुक्त <sup>1</sup> उद्यम / सहायक जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, स्थुचुअल फंड आदि)	617311.12 564.29 5287.22 95523.83 1845.09  19659.69	
iii	ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1197244.53	
iv	अचल आस्तियां	28494.77	
v	अन्य आस्तियां		
	जिसमें से : साख और अमूर्त आस्तियां जिसमें से : साख अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर छोड़कर) आस्थगिक कर आस्तियां अन्य	28636.10 137831.59	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय व व्यय खाते में नामे शेष		
	<b>कुल आस्तियां</b>	<b>2313397.06</b>	

### सामान्य ईविवटी टीयर 1 पूँजी : लिखत एवं आरक्षित निधियां

	(₹ मिलियन में)
	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूँजी के घटक
1 सीधे निर्गत विशेषक सामान्य शेयर(और गैर संयुक्त पूँजी कंपनियों के लिए समकक्ष) पूँजी प्लस संबद्ध शेयर आधिक्य	80982.3
2 प्रतिधारित आमदनी	
3 संघित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	32494.8
4 सीईटी 1 से चरणबद्ध रूप से (केवल गैर संयुक्त उच्चम कंपनियों पर लागू) बाहर किए जाने के विषयाधीन प्रत्यक्ष निर्गत पूँजी	
5 सहायक कंपनियों द्वारा जारी एवं अन्य पक्षकारों (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी	
6 विनियामक समायोजनों के पूर्व सामान्य ईविवटी टीयर 1 पूँजी	113477.1
7 विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	
8 साख (संबद्ध कर दायित्व को घटाकर)	
9 आरथगिक कर आस्तियां	22289.7

**Table DF – 12**  
**Composition of Capital – Reconciliation Requirements**

**Step - 1**

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
<b>A</b>	<b>Capital &amp; Liabilities</b>		
i	Paid-up Capital Reserves & Surplus Minority Interest Share Application Money Total Capital	15597.28 100437.42  11500.00 127534.70	
ii	Deposits <i>of which:</i> Deposits from banks <i>of which:</i> Customer deposits <i>of which:</i> Other deposits (pl. specify)	212647.86 1800197.25	
iii	Borrowings <i>of which:</i> From RBI <i>of which:</i> From banks <i>of which:</i> From other institutions & agencies <i>of which:</i> Others (Outside India) <i>of which:</i> Capital instruments	4500.00 31130.15 11229.53 1039.94 47450.00	
iv	Other liabilities & provisions <b>Total</b>	77667.63 <b>2313397.06</b>	
<b>B</b>	<b>Assets</b>		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	87902.50	
	Balance with banks and money at call and short notice	93096.33	
ii	Investments: <i>of which:</i> Government securities <i>of which:</i> Other approved securities <i>of which:</i> Shares <i>of which:</i> Debentures & Bonds <i>of which:</i> Subsidiaries / Joint Ventures / Associates <i>of which:</i> Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	617311.12 564.29 5287.22 95523.83 1845.09 19659.69	
iii	Loans and advances <i>of which:</i> Loans and advances to banks <i>of which:</i> Loans and advances to customers	1197244.53	
iv	Fixed assets	28494.77	
v	Other assets <i>of which:</i> Goodwill and intangible assets <i>of which:</i> Deferred tax assets <i>of which:</i> Others	28636.10 137831.59	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	<b>Total Assets</b>	<b>2313397.06</b>	

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
<b>A</b>	<b>Capital &amp; Liabilities</b>		
i	Paid-up Capital <i>of which:</i> Amount eligible for CET1 <i>of which:</i> Amount eligible for AT1 Reserves & Surplus Share Application Money Minority Interest Total Capital	15597.28 15597.28 0.00 100437.42 11500.00  127534.70	
ii	Deposits <i>of which:</i> Deposits from banks <i>of which:</i> Customer deposits <i>of which:</i> Other deposits (pl. specify)	212647.86 1800197.25	
iii	Borrowings <i>of which:</i> From RBI <i>of which:</i> From banks <i>of which:</i> From other institutions & agencies <i>of which:</i> Others (pl. specify) <i>of which:</i> Capital instruments	4500.00 31130.15 11229.53  1039.94 47450.00	
iv	Other liabilities & provisions <i>of which:</i> DTLs related to goodwill <i>of which:</i> DTLs related to intangible assets	77667.63	
	<b>Total</b>	<b>2313397.06</b>	
<b>B</b>	<b>Assets</b>		
i	Cash and balances with	87902.50	
	Reserve Bank of India Balance with banks and money at call and short notice	93096.33	
ii	Investments <i>of which:</i> Government securities <i>of which:</i> Other approved securities <i>of which:</i> Shares <i>of which:</i> Debentures & Bonds <i>of which:</i> Subsidiaries / Joint Ventures / Associates <i>of which:</i> Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	617311.12 564.29 5287.22 95523.83 1845.09  19659.69	
iii	Loans and advances <i>of which:</i> Loans and advances to banks <i>of which:</i> Loans and advances to customers	1197244.53	
iv	Fixed assets	28494.77	
v	Other assets <i>of which:</i> Goodwill and intangible assets <i>Out of which:</i> Goodwill Other intangibles (excluding MSRs) Deferred tax assets Others	28636.10 137831.59	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	<b>Total Assets</b>	<b>2313397.06</b>	

**Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves**

		(₹ in million)	
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	80982.3	
2	Retained earnings		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	32494.8	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	113477.1	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Prudential valuation adjustments	22289.7	

## तालिका डीएफ - 13

### नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएँ

नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताओं का प्रकटीकरण ढाँचा

लिखत : ईक्विटी शेयर		
1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी। आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए01018
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	प्रयोज्य भारतीय संविधि एवं नियमनकारी उपचार
4	संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	ईक्विटी — कॉमन शेयर
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	15597.3
9	लिखत का सममूल्य	₹10/- प्रति कॉमन शेयर
10	लेखांकन वर्गीकरण	ईक्विटी पूँजी
11	जारी करने की मूल तारीख	दिसंबर 1969 एवं उसके बाद की विविध तारीखें
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	डिविडेंड
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	चल डिविडेंड
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित स्रचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	पूर्णतया विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमाप्त में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	सभी अन्य देनदारों के अधीनस्थ
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

**लखतः अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत गौण पूर्णतः प्रदत्त बेसल III अनुपालित सतत ऋण लिखत- अतिरिक्त टियर- I बांड 11.70% शुधला ।**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या नियमनकारी उपचार के लिए ब्लूमबर्ग पहचान कर्ता)	आईएनई 691ए08039 आई एनई 691ए08039
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	भारतीय विधि
	नियमनकारी उपचार	पूँजीलिखत
4	संक्रामी बासेल III नियम	योग्य
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	योग्य
6	एकल/ समूह / समूहऔरएकलका पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी लिखत
8	नियमनकारी पूँजीके लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	7500.00
9	लिखत का सममूल्य	10,00,000/-
10	लेखांकनवर्गीकरण	ऋण राशि
11	जारी करने की मूल तारीख	04.11.2016
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी रूप से
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14	पूर्वपर्यवेक्षीअनुमोदनकेअधीन जारीकर्ताद्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	04.11.2021
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो कूपन / डिविडेंड	उसके पश्चात प्रतिवर्ष कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	11.70%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	अपरिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का / के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	पीओएनवी ट्रिगर इवेंट या सी ई टी 1 ट्रिगर इवेंट, जैसा लागू हो
32	यदि मूल्य- घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	यथानुसारीओएनवी ट्रिगर/सीईटी1 ट्रिगर के पूर्ण या आंशिक प्रकटन पर
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	दोनों
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	आरबीआई दिशानिर्देशानुसार
35	परिसमापन में अधीनस्थताश्रेणी में रिथति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईकिवटी शेररों की ईकिवटी के निवेशकों के दावों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावों की अपेक्षा गौण होगा।
36	गैर-अनुपालकसंक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

### लिखत : प्रवर्तनकारी स्थायी ऋण लिखत 9.35% शुंखला III

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09136
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	भारतीय विनियमन अधिनियम ,1949
	नियमनकारी उपचार	
4	संक्रामी बासेल III नियम	अतिरिक्त टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	अतिरिक्त टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	प्रवर्तनकारी स्थायी ऋण लिखत
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	1600.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	22.12.2007
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	परिपक्वता नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	22.12.2017
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	हाँ
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा बैंक के जमाकर्ताओं, सामान्य देनदारों और अधीनस्थ ऋण के दावों के अधीनस्थ होगा
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

**लिखतः अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 8.90% शृंखला IV**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09177
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम नियमनकारी उपचार	आरबीआई
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी दृंजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	2500.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	25.03.2010
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	25.03.2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	आबंटन की मान्य तारीख से 10वें वर्ष के अंत में सममूल्य पर (आरबीआई की पूर्व अनुमति से )
15	वैकल्पिक मांग तिथियाँ, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	25.03.2020
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो कूपन/डिविडेंड	लागू नहीं कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	8.90%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो रक्षायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा इक्विटी शेयरों की इक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

**लिखतः अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.50% शृंखला IX**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूबर्ग)	आईएनई 691ए09144
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	नियमनकारी उपचार	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	180.00
9	लिखत का सम्मूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्णकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2008
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	30.04.2018
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.50%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेर्यों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

**लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.75% शृंखला X**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या बिल्मबर्ग)	आईएननई691ए09151
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	नियमनकारी उपचार	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर - II बांड
8	नियमनकारी पैँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	880.00
9	लिखत का सम्मूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	22.12.2008
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	22.04.2019
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	9.75%
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदाई	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमाप्त में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में प्रेषकों का दावा ईपिवटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

**लिखतः अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 8.92% शुंखला XI**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या बिलुमबर्ग)	आईएननई 691ए 09169
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	नियमनकारी उपचार	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	2560.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	08.03.2010
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	08.03.2020
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	8.92%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमाप्त में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

**लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.00% शृंखला XII**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनिक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई 691ए09185
3	लिखत को सांसित करनेवाले नियम नियमनकारी उपचार	आरबीआई
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर-II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	5,000.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	28.12.2012
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	28.12.2022
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.00%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में रिस्ति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा ईयिवटी शेयरों की ईयिवटी में निवेश अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

**लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बेसल ॥ अनुपालित टियर -॥ बांड 8.95% शृंखला ।**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक UCO Bank
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजीप्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08047INE691A08047
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम नियमनकारी उपचार	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल ॥ नियम	टियर-॥
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल ॥ नियम	योन्युडैयैमनी
6	एकल/ समूह/ समूहऔरएकलका पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	गौणटियर-टियर-॥॥
8	नियमनकारी पूँजीके लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	10000
9	लिखत का सममूल्य	10000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकनवर्गीकरण	देयतौर्चिमेनैअ
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2017
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	31.03.2027
14	पूर्व पर्येकी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ताद्वारामांग	हाँगीज
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	31.03.2022
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	प्रत्येक वर्ष
	कूपन/ डिविडेंड	
17	नियत या चल डिविडेंड/ कूपन	निश्चय
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 8.95% देय 8.95 %
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहींर्श
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहींर्श
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर “प्वार्इट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर” नामक ट्रिगर की घड़ी आने पर बांडों को स्थायी रूप से बढ़े खाते डाला जा सकता है । पी ओ एन वी ट्रिगर की घड़ी निम्नांकित से पहले आएगी:
		क) निर्णय कि स्थायी रूपसे बढ़े खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक ह; और
		ख) पूँजी के सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा।ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बढ़े खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूँजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूँजी का विरलीकरण न हो ।

32 यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33 यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34 यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35 परिसमापन में अधीनस्थताश्रेणी में रिथ्ति बांड धारको के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामन्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधीत संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे । बांड धारको को, दिवालियापन और परिसमापन की रिथ्ती को छोड़कर होने सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा ।
36 गैर-अनुपालकसंक्रामित लक्षण	नहीं
37 यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

**Table DF-13**  
**Main Features of Regulatory Capital Instruments**

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
<b>INSTRUMENT: Equity Shares</b>		
1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A01018
3	Governing law(s) of the instrument <i>Regulatory treatment</i>	Applicable Indian statutes and Regulatory requirements
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Equity – common share
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	15597.3
9	Par value of instrument	₹10/- per common share
10	Accounting classification	Equity Capital
11	Original date of issuance	December'1969 and various dates thereafter
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable <i>Coupons / dividends</i>	Not Applicable Dividends
17	Fixed or floating dividend/coupon	Floating Dividend
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Non -Convertible Unsecured Subordinated Fully paid Basel III Compliant Perpetual Debt Instruments -Additional Tier-1 Bonds 11.70% Series I (INE691A08039)**

1 Issuer	UCO Bank
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08039
3 Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law Capital Instrument
4 Transitional Basel III rules	Eligible
5 Post-transitional Basel III rules	Eligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7 Instrument type	Additional Tier 1 Capital Instruments
8 Amount recognized in regulatory capital (` in million, as of most recent reporting date)	7500.00
9 Par value of instrument	10,00,000/-
10 Accounting classification	Borrowings
11 Original date of issuance	04.11.2016
12 Perpetual or dated	Perpetual
13 Original maturity date	NA
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	04.11.2021
16 Subsequent call dates, if applicable <i>Coupons / dividends</i>	Every year thereafter Coupon
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18 Coupon rate and any related index	11.70%
19 Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21 Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22 Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23 Convertible or non-convertible	Non Convertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25 If convertible, fully or partially	Not Applicable
26 If convertible, conversion rate	Not Applicable
27 If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28 If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30 Write-down feature	Yes
31 If write-down, write-down trigger(s)	PONV Trigger Event or CET 1 Trigger Event, as applicable
32 If write-down, full or partial	Fully or Partially on occurrence of the PONV Trigger/CET1 Trigger, as applicable
33 If write-down, permanent or temporary	Both
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No
37 If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 9.35% Series III**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09136
3	Governing law(s) of the instrument <i>Regulatory treatment</i>	RBI
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1600.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	22.12.2007
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22.12.2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	At par at the end of 10th year from deemed date of allotment (with the prior permission of RBI)
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	22.12.2017
16	Subsequent call dates, if applicable <i>Coupons / dividends</i>	Not Applicable Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	0
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 8.90% Series IV**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09177
3	Governing law(s) of the instrument <i>Regulatory treatment</i>	RBI
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2500.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	25.03.2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	25.03.2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	At par at the end of 10th year from deemed date of allotment (with the prior permission of RBI)
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	25.03.2020
16	Subsequent call dates, if applicable <i>Coupons / dividends</i>	Not Applicable Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.90%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.50% Series IX**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09144
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	180.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	31.03.2008
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	30.04.2018
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.50%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.75% Series X**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09151
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	880.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	22.12.2008
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22.04.2019
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	9.75%
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	NA
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 8.92% Series XI**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09169
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2560.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	08.03.2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	08.03.2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.92%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09185
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5000.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.12.2012
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.12.2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.95% Series I**

1 Issuer	UCO Bank
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08047
3 Governing law(s) of the instrument <i>Regulatory treatment</i>	Indian Law
4 Transitional Basel III rules	Tier - II
5 Post-transitional Basel III rules	Eligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7 Instrument type	Subordinate Tier II
8 Amount recognised in regulatory capital (` in million, as of most recent reporting date)	10000
9 Par value of instrument	10000 million (1 million per Bond)
10 Accounting classification	Liability
11 Original date of issuance	31.03.2017
12 Perpetual or dated	Dated
13 Original maturity date	31.03.2027
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31.03.2022
16 Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Every Year
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18 Coupon rate and any related index	8.95% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19 Existence of a dividend stopper	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21 Existence of step up or other incentive to redeem	NO
22 Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23 Convertible or non-convertible	Non Convertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25 If convertible, fully or partially	Not Applicable
26 If convertible, conversion rate	Not Applicable
27 If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28 If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30 Write-down feature	Yes
31 If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of: a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32 If write-down, full or partial	Full

33 If write-down, permanent or temporary	Permanent
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36 Non-compliant transitioned features	No
37 If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**तालिका डीएफ - 14**  
**नियमनकारी पूँजी आवश्यकताओं के पूर्ण नियम एवं शर्तें**

क्र.सं.	लिखत	संपूर्ण नियम एवं शर्तें
1	ईक्विटी शेयर (आईएनई691ए01018)	साधारण शेयर: असंचयी
2	पूर्ण भुगतान किए गये अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत अधीनीकृत बासेल III अनुपालित शाश्वत ऋण लिखत- अतिरिक्त टियर 1 बांड 11.70% शृंखला (आईएनई691ए08039)	निर्गम मात्रा: ₹ 750 करोड़, आबंटन की तारीख 04.11.2016, प्रस्तुति एवं आमंत्रण विकल्प: आमंत्रण विकल्प की तारीख 04.11.2021. व्याज दर एवं बारम्बारता: 11.70% 04 नवम्बर. सूचीकरण: एन एस ई के पास सूचीकृत, सभी अमूर्त रूप में।
3	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 9.35% शृंखला III (आईएनई691ए09136)	जारी प्रमात्रा: ₹320 करोड़, आबंटन की तारीख: 22.12.2007, प्रतिदान की तारीख: 22.12.2022, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 22.12.2017. व्याज दर और आवृत्ति: 9.35%, 22 जून एवं 22 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
4	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 8.90% शृंखला IV (आईएनई691ए09177)	जारी प्रमात्रा: ₹500 करोड़, आबंटन की तारीख: 25.03.2010, प्रतिदान की तारीख: 25.03.2025, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 25.03.2020. व्याज दर और आवृत्ति: 8.90%, 25 मार्च एवं 25 सितंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
5	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 9.50% शृंखला IX (आईएनई691ए09144)	जारी प्रमात्रा: ₹100 करोड़, आबंटन की तारीख: 31.03.2008, प्रतिदान की तारीख: 30.04.2018, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख : लागू नहीं. व्याज दर और आवृत्ति: 9.50%, 31 मार्च एवं 30 सितंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
6	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 9.75% शृंखला X (आईएनई691ए09151)	जारी प्रमात्रा: ₹ 275 करोड़, आबंटन की तारीख: 22.12.2008, प्रतिदान की तारीख: 22.04.2019, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं . व्याज दर और आवृत्ति: 9.75%, 22 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
7	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 8.92% शृंखला XI (आईएनई691ए09169)	जारी प्रमात्रा: ₹800 करोड़, आबंटन की तारीख: 08.03.2010, प्रतिदान की तारीख: 08.03.2020, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. व्याज दर और आवृत्ति: 8.92%, 8 मार्च. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
8	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर-II बांड 9.00% शृंखला XII (आईएनई691ए09185)	जारी प्रमात्रा: ₹1000 करोड़, आबंटन की तारीख: 28.12.2012, प्रतिदान की तारीख: 28.12.2022, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. व्याज दर और आवृत्ति: 9.00%, 28 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
9	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 8.95% शृंखला I (आई एन ई 691ए 08047)	निर्गम मात्रा: ₹1000 करोड़, आबंटन की तारीख 31.03.2017, प्रतिदेशता की तारीख: 31.03.2027, सम मूल्य ₹1 मिलियन प्रस्तुति एवं आमंत्रण विकल्प: आमंत्रण विकल्प की तारीख 31.03.2022 व्याज दर एवं बारम्बारता: 8.95%, 31 मार्च. सूचीकरण: एन एस ई के पास सूचीकृत, सभी अमूर्त रूप में।

**Table DF - 14**  
**Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments**

Sl. No.	Instruments	Full Terms and Conditions
1	Equity Shares (INE691A01018)	Ordinary Shares, non-cumulative.
2	Non -Convertible Unsecured Subordinated Fully paid Basel III Compliant Perpetual Debt Instruments -Additional Tier-1 Bonds 11.70% Series I (INE691A08039)	Issue Size: ₹750 Crore, Date of Allotment: 04.11.2016, Put and Call Option: Call option date 04.11.2021. Rate of Interest and frequency: 11.70%, 04th November. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
3	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 9.35% Series III (INE691A09136)	Issue Size: ₹320 Crore, Date of Allotment: 22.12.2007, Date of Redemption: 22.12.2022, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 22.12.2017. Rate of Interest and frequency: 9.35%, 22nd June and 22nd December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
4	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 8.90% Series IV (INE691A09177)	Issue Size: ₹500 Crore, Date of Allotment: 25.03.2010, Date of Redemption: 25.03.2025, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 25.03.2020. Rate of Interest and frequency: 8.90%, 25th March and 25th September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
5	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.50% Series IX (INE691A09144)	Issue Size: ₹100 Crore, Date of Allotment: 31.03.2008, Date of Redemption: 30.04.2018, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency: 9.50%, 31st March & 30th September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
6	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.75% Series X (INE691A09151)	Issue Size: ₹275 Crore, Date of Allotment: 22.12.2008, Date of Redemption: 22.04.2019, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency: 9.75%, 22nd December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
7	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 8.92% Series XI (INE691A09169)	Issue Size: ₹800 Crore, Date of Allotment: 08.03.2010, Date of Redemption: 08.03.2020, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency: 8.92%, 8th March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
8	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII (INE691A09185)	Issue Size: ₹1000 Crore, Date of Allotment: 28.12.2012, Date of Redemption: 28.12.2022, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency: 9.00%, 28th December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
9	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.95% Series I (INE691A08047)	Issue Size: ₹ 1000 Crore, Date of Allotment: 31.03.2017, Date of Redemption: 31.03.2027, Par Value: ₹1 Million Put and Call Option: Call option date 31.03.2022. Rate of Interest and frequency: 8.95%, 31st March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form

**तालिका डीएफ - 15**  
**पारिश्रमिक की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ**

राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं हैं।

**Table DF - 15**  
**Disclosure Requirements for Remuneration**

Not applicable to Nationalised Banks.

## तालिका डीएफ-16:

### इकिवटी - बैंकिंग बही रिथितियों का प्रकटीकरण

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को खरीद की तारीख को कारोबार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता के लिए धारित(एचटीएम) की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है उन्हें एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित इकिवटी निवेशों को पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायकों एवं संयुक्त उद्यमों की एकिवटी में निवेशों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करने की जरूरत होती है। इनको कारोबार उद्देश्य से संबंध कायम करने के नीतिगत उद्देश्य से धारित किया जाता है।
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों का मार्कई-टू-मार्केट नहीं परंतु उनकी अधिग्रहण लागत पर निर्वाह किया जाता है। अस्थायी के अलावा इकिवटी निवेशों के मूल्य में आनेवाली किसी भी न्यूनता के लिए प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुई किसी भी हानि को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुए लाभ को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त करके, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर एवं सांविधिक आरक्षित निधि को छोड़कर पूँजी आरक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है।

### गुणात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	तुलन पत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	खुले में प्रस्तावित शेयर मूल्य से तत्वत मिल हो
अनुद्वृत उद्वृत	191.41 शून्य/NIL	191.41 शून्य/NIL	लागू नहीं लागू नहीं

ख. निवेशों का प्रकार और प्रकृति

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	आम कारोबार	निजी रूप से धारित
सहभागी, सहभागी एवं संयुक्त उद्यम (आरआरबी के लिए) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो 2 सितंबर, 2004 की रिथित में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।		184.50 6.91

ग. लाभ/हानि विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
समीक्षाधीन अवधि के दौरान बिक्रियों और परिसमाप्तनों से उत्पन्न संचयी रूप से प्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-

(राशि ₹ करोड़ में)

घ. बैंकिंग बही के लिए पूँजी आवश्यकता

इकिवटी समूहन	बासेल III के तहत व्यवहार	पूँजी आवश्यकता
सहायक	नियमनकारी पूँजी से कटौती	
सहभागी एवं संयुक्त उद्यम	भारित जोखिम दर /@ 250%	41.51
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो 2 सितंबर, 2004 की रिथित में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।	भारित जोखिम दर /@ 150%	0.93

**Table DF - 16**  
**Disclosure for Banking Book Positions**

**QUALITATIVE DISCLOSURES**

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic Objective to maintain relationships for business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

**QUANTITATIVE DISCLOSURES**

**A. Value of Investments**

(₹ in crore)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value)
Unquoted	191.41	191.41	NA
Quoted	NIL	NIL	NA

**B. Types and Nature of Investments**

(₹ in crore)

Investments	Publicly traded	Privately held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures (for RRBs)		184.50
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.		6.91

**C. Gain/ Loss Statement**

(₹ in crore)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	-
Total unrealized gains (losses)	-
Total latent revaluation gains (losses)	-
Unrealized gains (losses) included in Capital	-
Latent revaluation gains (losses) included in Capital	-

**D. Capital Requirement for Banking Book**

(₹ in crore)

Equity grouping	Treatment under Basel III	Capital Requirement
Subsidiary	Deducted from Regulatory capital	
Associate and Joint Ventures	Risk weighted @ 250%	41.51
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	Risk weighted @ 150%	0.93

**डीएफ- 17:**  
**लेखांकन परिसंपत्तियों और लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की सारांश तुलना**

क्र.सं.	निवेश	राशि ₹ मिलियन में
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणी के अनुसार कुल समेकित आरित्यां	2313397.07
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उद्यमों में निवेश हेतु समायोजन जिन्हें लेखांकन के उद्देश्य से समेकित किया गया है परंतु जो नियमनकारी समेकन के दायरे से बाहर हैं	-
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलन-पत्र में व्यक्त न्यासिक परिसंपत्तियों हेतु परंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोजर कार्रवाई से रहित समायोजन	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों हेतु समायोजन	13164.76
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेनों हेतु समायोजन (अर्थात् रेपो और इसी तरह के सुरक्षित ऋण)	0.00
6	तुलनपत्र से इतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात्, तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजरों की ऋण समतुल्य राशियों में रूपांतरण)।	98555.28
7	अन्य समायोजन	(22289.70)
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	<b>2402827.41</b>

**डीएफ-18**  
**लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण नमूना**

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
तुलन पत्र में व्यक्त एक्सपोजर		
1.	तुलन पत्र में व्यक्त मदें (व्युत्पन्नों और एसएफटी बिना, लेकिन संपार्शिवक सहित)	2313397.06
2.	बासेल III टियर 1 पूँजी के निर्धारण में कटौती की गई परिसंपत्ति राशियाँ	(22289.70)
3.	तुलन-पत्र में व्यक्त कुल एक्सपोजर (व्युत्पन्नों और एसएफटी बिना) (पंक्ति 1 एवं 2 का कुल योग)	2291107.37
व्युत्पन्न एक्सपोजर		
4.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़ी प्रतिरक्षापन लागत(यानी योरय नकद विचलन मार्जिन को छोड़कर)	6071.29
5.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़े पीएफई के लिए एड-ऑन राशियाँ	7093.47
6.	परिचालन लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसरण में प्रावधानकृत संपार्शिवक व्युत्पन्नों के लिए ग्रॉस-अप, जहाँ तुलन-पत्र परिसंपत्तियों से कटौती की गई	0.00
7.	व्युत्पन्न लेन-देन में प्रावधानकृत नकद भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्त परिसंपत्तियों की कटौती	0.00

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
8.	ग्राहक द्वारा मंजूर व्यापार एक्सपोज़रों से छूट प्राप्त सीसीपी लेग	0.00
9.	लिखित ऋण व्युत्पन्नों की समायोजित प्रभावी नोशनल राशि	0.00
10.	समायोजित प्रभावी नोशनल ऑफसेट लिखित ऋण व्युत्पन्नों के लिए एड-ऑन कठौतियाँ	0.00
11.	कुल व्युत्पन्न एक्सपोज़र (पंक्ति 4 से लेकर 10 का कुल योग)	13164.76
	<b>प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र</b>	
12.	बिक्री लेखांकन लेनदेन के समायोजन के बाद सकल एसएफटी परिसंपत्तियाँ (नेटिंग पर ध्यान न देते हुए)	0.00
13.	सकल एसएफटी परिसंपत्तियों की छोड़ी गई नकद भुगतान योग्य और नकद प्राप्य राशियाँ	0.00
14.	एसएफटी एक्सपोज़र के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	0.00
15.	एजेंट लेनदेन एक्सपोज़र	0.00
16.	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र (पंक्ति 12 से लेकर 15 का कुल योग)	0.00
	<b>तुलन पत्र से इतर अन्य एक्सपोज़र</b>	
17.	सकल नोशनल राशि पर तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र	268068.30
18.	ऋण समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन	(169513.02)
19.	तुलन पत्र से इतर मदें (पंक्ति 17 एवं 18 का कुल योग)	98555.28
	<b>पूँजी एवं कुल एक्सपोज़र</b>	
20.	टियर 1 पूँजी	98687.40
21.	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 एवं 19 का कुल योग)	2402827.41
	<b>लीवरेज अनुपात</b>	
22.	बासेल III लीवरेज अनुपात	4.11%

**Table DF - 17****Summary Comparison of accounting assets and leverage ratio exposure**

Sr No	Particulars	Amount (₹ in Millions)
1	Total consolidated assets as per published financial Statements	2313397.07
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	13164.76
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	0.00
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	98555.28
7	Other adjustments	(22289.70)
8	Leverage ratio exposure	<b>2402827.41</b>

**Table DF - 18****Leverage ratio common disclosure template**

Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
<b>On-Balance sheet exposure</b>		
1.	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	2313397.06
2.	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(22289.70)
3.	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2291107.37
<b>Derivative exposure</b>		
4.	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	6071.29
5.	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives Transactions	7093.47
6.	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7.	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00

Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
8.	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures	0.00
9.	Adjusted effective notional amount of written credit Derivatives	0.00
10.	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11.	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	13164.76
	<b>Securities financing transaction exposures</b>	
12.	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	0.00
13.	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets	0.00
14.	CCR exposure for SFT assets	0.00
15.	Agent transaction exposures	0.00
16.	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	0.00
	<b>Other off-balance sheet exposures</b>	
17.	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	268068.30
18.	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(169513.02)
19.	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18) 1	98555.28
	<b>Capital and total exposures</b>	
20.	Tier 1 capital	98687.40
21.	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	2402827.41
	<b>Leverage ratio</b>	
22.	Basel III leverage ratio	4.11%